



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052023-245891
CG-DL-E-16052023-245891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2095]
No. 2095]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2023

का.आ. 2188(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 70 तारीख 4 जनवरी, 2022 द्वारा, उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में देश के विभिन्न भागों में अवस्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल) अभी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा काकिनाडा—हैदराबाद—ऊरण—अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतु चाहिये, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 4724 तारीख. 19 सितंबर, 2022; द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अर्जन किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार क्रमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में

निहित होने के बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. अभी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.ई.पी.एल.), जो कि दहेज-नागोथने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. अभी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित है, को मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. अभी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. की दहेज-नागोथने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. ने, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स आर.ई.पी.एल. के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, जो मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. अभी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित किया गया था, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लंगों से मुक्त, मैसर्स आर.ई.पी.एल. में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) वाकस	49/17(पुराना सर्वे नं. 83/17)	00	08	00
	47/1बी	00	08	29
	49/5	00	13	35

[फा. सं. एल.-14014/132/2021-जी.पी.-II(ई-40092)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2023

S.O. 2188(E).—Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 70 (E) dated 4th January, 2022; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Kakinada – Hyderabad – Uran – Ahmedabad Gas Pipeline by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited (RGITL), now known as Pipeline Infrastructure Limited for transportation of natural gas to consumers in various parts of the country;

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the respective Competent Authorities under sub-section(1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the said pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 4724 (E) dated 19th September, 2022;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s RGITL, now known as Pipeline Infrastructure Limited instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Ethane Pipelines Limited (REPL), which is laying Dahej – Nagothane Liquid Ethane Pipeline, intends to share with M/s RGITL now known as Pipeline Infrastructure Limited the Rights of Users in land, described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s RGITL, now

known as Pipeline Infrastructure Limited as mentioned above;

And whereas, M/s RGTIL, now known as Pipeline Infrastructure Limited has consented to the sharing of the Rights of Users in the said land with M/s REPL for the purpose of laying Dahej - Nagothane Liquid Ethane Pipeline;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s RGTIL, now known as Pipeline Infrastructure Limited would also be vested in M/s REPL, free from all encumbrances from the date of publication of this declaration.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Vakas	49/17 (Old No 83/17)	00	08	00
	47/1B	00	08	29
	49/5	00	13	35

[F. No. L-14014/132/2021-GP-II (E-40092)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.